M. T. B. COLLEGE, SURAT

Manuscripts Library

No. Ref.

Ser. 279

Title: Narmadashtaka and Pushkarashtaka

279

नर्मदाष्टक व पुष्कराष्टक ॥

Narmadāshtaka and	Title
Puskarāshtaka by	Author
Sh'ankarāchārya	Editor
Sam. 1913	Year, Vols.
	Publisher
279	Remarks

279

श्रीगणेशायनमः॥अथनर्मदाष्टकप्रारंभः॥ ॐ सबिंदुसिंधुसस्खलि
त्तरंगभंगरंजितं द्विषत्सुपापनाशजातकारिवारिसंयुतं॥ कृतांतदूत
कालभूतभीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपंकजं नमामि देवि नर्मदे॥१॥
त्वदंबुलीनदीनमीनदिव्यसंप्रदायकं कलौमलौघभारहारसर्वतीर्थ
नायकं॥ समछकछनक्रचक्रचक्रवाकशर्मदे त्वदीय०॥२॥ महागभी
रनीरतीरपादपूतभूतलं ध्वनंप्रपातपातकारिसर्वतीर्थनायकं॥
जगल्लयेमहाभयेमृकंडसूनुशर्मदे त्व०॥३॥ गतंतदैवमेभयंत्वदंबु

गं० वीक्षितंयदामृकंडसूनुशौनकैःसुरारिसेवितंसदा ॥ पुनर्भवाब्धि
१ जन्मजंभयंभवाब्धिदुःखवर्मदे त्व० ॥ ४ ॥ अलक्षलक्षकिंनरामरा
सुरारिपूजितंसुलक्षलक्षनीरतीरपक्षिलक्षकूजितं ॥ वसिष्ठ
शिष्टपिप्पलादकर्दमादिशर्मदे त्व० ॥ ५ ॥ सनत्कुमारनाचिकेत
कश्यपादिषट्पदैर्धृतंस्वकीयमानुषेषुनारदादिवंदितं ॥ रवींदु
रंतिदेवदेवकामराजशर्मदे त्व० ॥ ६ ॥ अहोमृतंसनंसृतंमहेशके १
शजातटेकिराततस्तुवाडवेषुपंडितेशठेनटे ॥ दुरंतपापताप

हारिसर्वजंतुशर्मदे त्व० ॥ ७ ॥ अलक्षलक्षपापलक्षनाशकारितापकं
ततस्तुजीवजंतुतंतुभुक्तिमुक्तिदायकं ॥ विरंचिविष्णुशंकरस्वकी
यधामवर्मदे त्व० ॥ ८ ॥ विधूयपातकंपरंविहायगर्भवासतां सुल
भ्यदेहदुर्लभंत्वदीयपाददासतां ॥ सुरासुरामरानरामहेशसेवनर
तां त्व० ॥ ९ ॥ इदंतुनर्मदाष्टकंत्रिकालमेवतेसदाजयंतुतेनिरंतरं
नयांतिदुर्गतिंकथा ॥ पुनर्भवाजिरानरामहेशधामगौरवं त्व० ॥ १०
इतिश्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकराचार्यविरचितं

गं० नर्मदाष्टकस्तोत्रं संपूर्णं ॥ श्रीनर्मदार्पणमस्तु ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥
२ श्रीयुतं त्रिदेहितापपापराशिनाशकं मुनींद्रसिद्धसाध्यदेववंदान
वैरभीष्टतं ॥ सुदुर्जमासत्थक्लुपंचवासरेधरागतं तदन्यथांतरि
क्षगं सुमंत्रभावनानुगं ॥ इदंबुपानमज्जनं दशांसदामृताकरं न
मामि ब्रह्मपुष्करं सवैष्णवं सशांकरं ॥ १ ॥ त्रिपुष्कर त्रिपुष्करत्रि २
पुष्करेति संस्मरेस दूरदेशगोपयस्त दंगपापनाशनं ॥ प्रपन्नदुः
खभंजनं सुरंजनं सुरेवाकरं नमामि० ॥ २ ॥ मृकंडमंकणोपुन्ह

स्यकण्वपर्वताश्रिता अगस्त्यभार्गवोदधिच नारदोशुकादया ॥ सुपप
तीर्थपावनेकदृष्टयोदयाकरं नमा० ॥ ३ ॥ सदा पितामहेक्षितं वराहवि
ष्णुनेक्षितं तथात्मटेश्वरेक्षितं सुरासुरैः सुरक्षितं ॥ इहैव भुक्तिमुक्ति
दं प्रजाकरं धनाकरं नमा० ॥ ४ ॥ त्रिदंडिदंडिब्रह्मचारितापसैः सुसेवि
तं पुरार्धचंद्रआजगंधनंदिकेश्वराभिधैः ॥ सुवैजनाथनीलकंठसेवि
तं सुखाकरं न० ॥ ५ ॥ यमादिसंयुतो नरस्त्रिपुष्करे निमज्जति पिता
महस्य माधवप्य माधवं प्रसन्नतां ॥ प्रयाति तस्य दंदधाति यत्नतो

पु० गुणाकरं नमामि ॥६॥ सुपंचधा सरस्वती विराजते यदंतरे तथैकयोग्य नाय
कं विभाति तीर्थदायकं ॥ अनेकदेवपित्ततीर्थसागरं रमाकरं नमामि ॥७॥
२ इदं हि पुष्करत्रयं सुनीरनीरजान्वितं ॥ स्थितं मदीयमानसे कदापि
मापगच्छतु ॥ त्रिसंधि भापठंति ये त्रिपुष्कराष्टकं नराप्रदीसंदेहभूष
णाभवंति केशकिंकरा ॥८॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचा
र्यश्रीमच्छंकराचार्यविरचितपुष्कराष्टकस्तोत्रं संपूर्णं ॥ श्रीपुष्करा २
र्पणमस्तु ॥ संवत १९१२ शाके १७७८ माघशु० ८ तद्दिने संपूर्णं ॥ ॥